



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 472]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 14, 1982/आश्विन 22, 1904

No. 472]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 1982/ASVINA 22, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

प्रादेश

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 1982

का० आ० 745 (अ)/18कक/प्रो० वि० वि० अ०/82 — केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 542(अ)/18कक/प्रो० वि० वि० अ०/74, तारीख 13 सितम्बर, 1974 द्वारा प्रमूतमर शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड, प्रमूतमर नामक औद्योगिक उपक्रम के एक कारखाने प्रमूतमर आयल वर्क्स प्रमूतमर का 12 सितम्बर, 1979 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्रबन्ध बोर्ड नामक व्यक्ति-निकाय को प्राधिकृत किया था,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 454 (अ) तारीख 18 जुलाई, 1978 द्वारा 12 सितम्बर, 1979 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए उक्त प्रबन्ध बोर्ड का स्थान एक नए प्रबन्ध बोर्ड ने ले लिया था,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 525 (अ)/18कक/प्रो० वि० वि० अ०/79, तारीख 11 सितम्बर, 1979 द्वारा तारीख 13 सितम्बर, 1974 और 18 जुलाई, 1978 के उक्त आदेशों की अवधि 12 सितम्बर, 1981 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 695 (अ)/18कक/प्रो० वि० वि० अ०/81 तारीख 11 सितम्बर, 1981

847 GI/82

द्वारा 13 सितम्बर, 1974 और 18 जुलाई, 1978 के उक्त दो आदेशों की अवधि 12 मार्च, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 134 (अ)/18कक/प्रो० वि० वि० अ०/81-तारीख 11 मार्च, 1982 द्वारा 13 सितम्बर, 1974 और 18 जुलाई, 1978 के उक्त दो आदेशों की अवधि 12 सितम्बर, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 679(अ)/18कक/प्रो० वि० वि० अ०/82 तारीख 10 सितम्बर, 1982 द्वारा 13 सितम्बर, 1974 और 18 जुलाई, 1978 के उक्त दो आदेशों की अवधि, दिल्ली उच्च न्यायालय के तारीख 3 सितम्बर, 1982 को सिविल रिट याचिका सं० 1410/1979 और उसमें फाइल किए गए अन्तर्वर्ती आदेशों पर दिए गए विनिश्चय के विरुद्ध भारत संघ द्वारा फाइल की गई विशेष इजाजत याचिका पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए, 14 अक्टूबर, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी,

और उच्चतम न्यायालय ने 4 अक्टूबर 1982 को विशेष इजाजत याचिका स्वीकार कर ली है और सिविल रिट याचिका सं० 1410/1979 पर दिल्ली उच्च न्यायालय के तारीख 3 सितम्बर, 1982 के विनिश्चय का प्रवर्तन पर रोक दिया है,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि क्रमशः तारीख 13 सितम्बर, 1974 और 18 जुलाई 1978 के

उक्त दो आदेश 15 अप्रैल, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है की और अवधि तक प्रभावी बने रहने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और नियन्त्रण) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, निदेश देती है कि तारीख 13 सितम्बर, 1974 और 18 जुलाई, 1978 के उक्त दो आदेश 15 अप्रैल, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बने रहेंगे।

[फा० सं० 4(5)/80-सी०यू०एस०]

ए० पी० सरवान, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 14th October, 1982

S.O. 745(E)/18AA/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 542(E)/18AA/IDRA/74, dated the 13th September, 1974, the Central Government had authorised a body of persons known as the Board of Management to take over the management of Amritsar Oil Works, Amritsar, a factory of the industrial undertaking known as Amritsar Sugar Mills Co. Ltd., Amritsar, for a period of five years upto and inclusive of the 12th September, 1979;

And, whereas, by the Order of the Government of India, in the Ministry of Industry No. S.O. 454(E), dated the 18th July, 1978, the said Board of Management was replaced by a new Board of Management for a period upto and inclusive of the 12th September, 1979;

And, whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry No. S.O. 525(E)/18AA/IDRA/79, dated the 11th September, 1979, the period of the said Orders dated the 13th September, 1974, and the 18th July, 1978, was extended upto and inclusive of the 12th September, 1981;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry No. S.O. 695(E)/18AA/IDRA/81, dated the 11th September, 1981, the period of the said two Orders dated the 13th September 1974 and the 18th July, 1978 was extended upto and inclusive of the 12th March, 1982;

And, whereas, by the Order of Government of India in the Ministry of Industry No. S.O. 134(E)/18AA/IDRA/81 dated the 11th March, 1982, the period of the said two Orders dated the 13th September, 1974 and 18th July 1978 was extended upto and inclusive of the 12th September, 1982;

And, whereas, by the Order of Government of India in the Ministry of Industry No. S.O. 659(E)/18AA/IDRA/82 dated the 10th September, 1982, the period of the said two orders dated the 13th September, 1974 and 18th July, 1978 was extended upto and inclusive of the 14th October, 1982, subject to the orders of the Supreme Court in the Special Leave Petition filed by the Union of India against the decision of the Delhi High Court dated the 3rd September, 1982 in Civil Writ Petition No. 1410/1979 and the connected interlocutory applications filed therein;

And, whereas the Supreme Court on the 4th October, 1982 has admitted the Special Leave Petition and stayed the operation of the decision of the Delhi High Court dated the 3rd September, 1982 in Civil Writ Petition No. 1410/1979;

And, whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said two Orders dated the 13th September, 1974, and the 18th July, 1978, respectively, should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 15th April, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said two Orders dated the 13th September, 1974, and the 18th July, 1978, continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 15th April, 1983.

[F. No. 4(5)/80-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.